




69597
Active Cases


51783
Cured/
Discharged


3720
Deaths


1
Migrated

 Resources
 State Data

COVID-19 INDIA
as on : 23 May 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

For any technical enquiry with respect to COVID19, you may kindly email on technicalquery.covid19@gov.in
Aarogya Setu IVRS  1921

Latest Updates

[22.05.2020](#)
Revised advisory on the use of Hydroxychloroquine (HCQ) as prophylaxis for COVID-19 infection **NEW**

COVID-19 Statewise Status (Click to expand)

Resources

Travel Advisories	20.03.2020 Instructions to all major and minor ports for dealing with(COVID-19)
Behavioural Health : Psycho-Social toll free helpline-08046110007	19.03.2020 Additional Travel Advisory
Citizens	18.03.2020 Standard Operating Procedure for Passenger Movement post Disembarkation
Hospitals	17.03.2020 Additional Travel Advisory
Training Material	16.03.2020 Additional Travel Advisory
States / Departments / Ministries	14.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through Land Check Posts
Employees	13.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through land check posts-COVID 19
Awareness Material	11.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through land check posts-COVID 19
Inspirational series on Healthcare Service Personnel	11.03.2020 Restrictions on International passenger traffic through land check posts-COVID 19

Awareness

English Hindi









संस्कृत एवं परिवार कल्याण विभाग
समाज कल्याण

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



**रोज़मर्रा की सभी वस्तुएं हर किसी के लिये हमेशा उपलब्ध हैं
घबराएं नहीं | भीड़ न लगाएं | जमाखोरी न करें**



-  **✓** बाजार, विक्रय केंद्र, अत्याज्य आदि जगहों पर कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाएं रखें
-  **✓** फेस शीट और अत्याज्य बाजार/विक्रय संबंधित जगहों की कार्यदृष्टि संरक्षण के साथ करें
-  **✗** विक्रय/विक्रय जगहों कार्यदृष्टि के लिए बार-बार बाजार न जाएं
-  **✗** अधिकदूर के लिए दृष्टि न विकल्प और न ही लाने लयाने
-  **✗** पर पर अत्याज्यक लेनी की भीड़ जगह न करें
-  **✗** विक्रय जगहों न करें या किसी दुकान के पर पर न जाएं

एक-दूसरे से अधिक दूरी हमेशा बनाएं रखें

यदि बाजार, दुकान या जगह जगह में अधिकतम दूरी बनाएं रखें, तो सभी जगहों में न जाएं और दुकान विक्रयक/विक्रयक का लाने करें

COVID-19 संबंधित जानकारी के लिए

समाज कल्याण विभाग का सम्पर्क पर परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, संस्कृत विभाग, दिल्ली का लाने करें
011-2619-2000, 011-2619-2001, 011-2619-2002, 011-2619-2003, 011-2619-2004, 011-2619-2005, 011-2619-2006, 011-2619-2007, 011-2619-2008, 011-2619-2009, 011-2619-2010

दूरी बनाएं COVID-19 से लड़ना है

011-2619-2000-2010



स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण विभाग
सर्वोपकारी



Help us to
help you



नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

COVID-19 परीक्षण की आवश्यकता – कब और कैसे?

सभी व्यक्तियों की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि

सुझाव है कि वे जो अपनी व्यक्तियों में चला गया है, जिन्होंने COVID-19 से प्रभावित लोगों की सलाह की हो या संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में रहे हो

किन लोगों का परीक्षण करना है

उन सभी व्यक्तियों का, जिनमें लक्षण मौजूद हो और

- जिन्होंने पिछले 14 दिनों में कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो
- जो किसी संक्रमित व्यक्ति को संपर्क में आये हो
- जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
- अस्पतालों में नती सीविकर एक्टिव रेस्पिरेटरी इलनेस (SARI), इन्फ्लुएंजा लक्षण इलनेस (ILI) या सीविकर निरोधिका जैसी बीमारियों को सही तरीका

ऐसे लक्षण-रहित व्यक्ति जो किसी संक्रमित व्यक्ति से प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम संपर्क में आते हैं, उनका परीक्षण एक बार संपर्क में आने के 14 दिनों और 14 दिनों के बीच में किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले संपर्क निम्न हैं:

- जो संक्रमित व्यक्ति को सलाह एक ही घर में रह रहे हो
- जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, एच.डी.) द्वारा प्रभावित व्यक्ति सुझाव मानने के बिना किसी संक्रमित व्यक्ति की जांच की हो

जांच के लिए सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है: kcrnrc.in

अधिक जानकारी के लिए

राज्य हेल्थसेक्टर में या सलाह एवं निरोधक कल्याण विभाग,
सलाह संचालन के 24x7 हेल्थसेक्टर सहायता पर कॉल करें

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com





स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
भारत सरकार



Help us to
help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



कोरोनावायरस से बचाव के उपाय



आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी,
सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी



आपने हाथों को साबुन-पानी
साफुन और पानी से धोएं।



बाजार और सभी जगहों में हों भी,
साथ में साबुन-पानी, आंखों-पानी
द्वारा निरंतरता का उपयोग करें।



आपने आंखों, नाक और मुँह को छूने
से बचने हाथों को धो लें।



सबसे कम से कम, सिर्फ़ को
दूर से सँद सुनें/सुनने से बचें।



दोस्तों और लोगों के साथ आंखों नाक
और मुँह को साफुन, सिर्फ़ से बचें।



सामाजिक जमावटों और
भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें।

आपका आपका स्वास्थ्य, आंखों का रोग होने से रोकने के लिए साफुन को साफुन कर लें, वे सुरक्षा वाले निरंतरता के साथ या आंखों को रोकने के लिए साफुन-पानी, आंखों साफुन के 1:2:1 निरंतरता के साथ या बचें और सिर्फ़ों का साफुन करें।

संलग्न 1 (2020) (2020) (2020)

1075 (टोल फ्री) | 011-23978046

ई-मेल को: ncov2019@gov.in, ncov2019@gmail.com

[moh.gov.in](https://www.moh.gov.in) | [facebook](https://www.facebook.com/ncov2019) | [twitter](https://twitter.com/ncov2019) | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UC...)



TRAVELLERS RETURNING TO INDIA



Inform the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing.



Wash hands from the airline crew if you have cough, fever or difficulty in breathing and wear it at all times.



Avoid close contact with family members or fellow travellers.



Follow the directions of airline crew while disembarking.



At airport, provide your travel itinerary and submit Self-reporting Form to Report Health Officer.



If you have returned from fever-affected countries* in the past 14 days and have cough, fever or difficulty in breathing, **call the helpline number immediately** and follow the instructions.

* List of countries affected by COVID-19: <https://www.moh.gov.in>

Stay protected!

Stay safe from Novel Coronavirus!

Contact **1075** Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

1075 and **+91-11-23978046**
ncov2019@gmail.com



भारत वापस लौटने वाले यात्री



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**



यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**

यहाँ आने से पहले, तुम्हारा हाथ धोने में सुनिश्चित हो जाओ। तुम्हारा **सामान्य वापस आने के लिए**

सुरक्षित रहें! नौकल कोरोना वायरस से बचे रहें!

भारत का जीवन वापस सामान्य बनाने के लिए 1075 या +91-11-23978046
ncov2019@india.gov.in



Help us to help you

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)



Protect yourself and others!

Follow these **Do's** and **Don'ts**

Do's



Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water or use alcohol based hand rub. Wash hands even if they are notchy clean.



Cover your nose and mouth with tissue/cloth/tissue while sneezing and coughing.



Wipe used tissues into closed bins immediately after use.



See a doctor if you feel unwell (fever, difficulty breathing and cough). While visiting doctor wear a mask/face to cover your mouth and nose.



If you have these symptoms/fever please call State helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24x7 helpline at 011-23979046.



Avoid participating in large gatherings.



Avoid a close contact with anyone, if you're experiencing cough and fever.



Touch your eyes, nose and mouth.



Sneeze in public.

Don'ts

Together we can fight Coronavirus

For further information :

Call at Ministry of Health, Govt. of India's 24x7 control room number

+91-11-2397 9046

Email at ncov2019@gmail.com

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)



— खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रहें सुरक्षित —

क्या करें क्या करें और क्या ना करें



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।



कोई भी खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। खांसते या छेड़ते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखें।

क्या ना करें

हम सब साथ मिलकर कोरोनावायरस से लड़ सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए

सहायता एवं परामर्श के लिए नेशनल हेल्थ हेल्पलाइन नंबर 14329 टोलफ्री नंबर पर +91-11-2397 8046 पर कॉल करें या ई-मेल करें ncov2019@gmail.com

FAQs

[Click to see the FAQ pdf](#)